



जंगल के बीच मिट्टी के घर से 355 पेटी शराब बरामद

- हिंदी न्यूज़
- झारखण्ड
- हजारीबाग

Publish Date:Wed, 15 Jul 2020 08:40 PM (IST)



संवाद सूत्र विष्णुगढ़: पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्रखंड के मडमो स्थित डुमरियाटाड़ स्थित एक घर से 355 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई है। यह जानकारी एसडीपीओ विष्णुगढ़ ओम प्रकाश ने बुधवार को प्रेसवार्ता कर दी। बताया कि 26 सौ लीटर विदेशी शराब है। छापेमारी प्रखंड के मडमो स्थित डुमरियाटाड़ गांव में की गई। एक कच्चे मकान में गोदाम बनाकर शराब रखा गया था। हालांकि, तस्कर जंगल का लाभ लेकर फरार हो गए। घर की जांच के क्रम में कुल 355 पेटी किंग्स गोल्ड कम्पनी का स्पेशल विस्की 750 एमएल का प्लास्टिक बोतल में पाया गया। एक पेटी में 12 बोतल है। एसडीपीओ ने बताया कि शराब के चिपकाए गए पोस्टर के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में बिक्री के लिए इसे तैयार की गई है। परंतु पुलिस इसकी जांच कर रही है। प्रथम श्रेणी नकली शराब प्रतीत हो रही है। पुलिस ने घर मालिक डूमरियाटांड के

बुधन हेम्ब्रम पिता फगुआ हेम्ब्रम, दो भाई बगोदर के महेंद्र प्रसाद और नरेंद्र प्रसाद पिता कार्तिक मंडल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। छापेमारी दल में एसडीपीओ ओम प्रकाश के अलावा थाना प्रभारी विष्णुगढ़ प्रमोद कुमार सिन्हा, पीएसआई राजू कुमार, अरुण कुमार तथा जिला बल के जवान शामिल थे।

गोमिया क्षेत्र में खपाने के लिए किराए पर घर लेकर किया गया था डंप

एसडीपीओ ओम प्रकाश ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि शराब विष्णुगढ़ और गोमिया के सीमा पर गांव से बरामद किया गया है। जंगलों में बने इस घर से शराब की बड़ी खेप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि

बोकारो और गोमिया के क्षेत्रों में विष्णुगढ़ के रास्ते शराब की अवैध तस्करी की जा रही है। पूछताछ में तस्करों द्वारा जंगली क्षेत्र में सीमा पर बने

घर को किराए पर लेकर अवैध शराब को डंप कर रहे हैं। पुलिस विष्णुगढ़ ही नहीं दारु के झुमरा, टाटीझरिया, चुरचू, चरही सहित अन्य स्थलों पर विशेष अभियान चला रहे हैं। शराब को लेकर पुलिस सख्त है और किसी भी सूरत में इस तरह के गैर कानूनी कार्य संचालित नहीं होने दिया जाएगा।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/jharkhand/hazaribagh-spurious-liquor-seized-20515683.html>